

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 1905
गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

- उत्तर-पूर्व में पर्यटन अवसंरचना
1905. श्री बिप्लब कुमार देबः
क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या मंत्रालय को जानकारी है कि देश का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए ज़बर्दस्त अप्रयुक्त क्षमता प्रस्तुत करता है;
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व भर के पर्यटकों को देश के उत्तर-पूर्वी भागों में पर्यटन के लिए आकर्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्व में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए उपयोग की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): उत्तर पूर्वी क्षेत्र विविध पर्यटक आकर्षणों से समृद्ध है और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग विशेषताएं हैं। पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन, प्रशाद और अवसंरचना विकास सहायता जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए पर्यटन के विकास और संवर्धन पर विशेष बल देता है जिसमें पर्यटन अवसंरचना के विकास क्षेत्र सहायता, मेलों/महोत्सवों, क्षेत्र के पर्यटन सम्बन्धी समारोहों के संवर्धन, प्रचार अभियान आदि शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) पर्यटन मंत्रालय द्वारा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को रेखांकित करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक कार्यक्रम है। दिनांक 17 तथा 18 नवम्बर, 2022 को आईटीएम का आयोजन आइजोल, मिजोरम में किया गया था। अप्रैल 2020 से देखो अपना देश अभियान के तहत पर्यटन मंत्रालय एनईआर सहित विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर वेबिनारों का आयोजन कर रहा है और कुछेक वेबिनार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर केन्द्रित थे। सितम्बर 2021 में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था जिसमें असम के माननीय

मुख्य मंत्री, माननीय पर्यटन, संस्कृति एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री, माननीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री, उत्तर-पूर्वी राज्यों के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पदाधिकारी और यात्रा एवं आतिथ्य उद्योग के हितधारक शामिल थे।

पर्यटन मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस)-उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के माध्यम से इस क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना और कनेक्टिविटी में वृद्धि कर रहा है। पर्यटन के संवर्धन हेतु पर्यटन मंत्रालय आइजोल में एक सम्मेलन केन्द्र और उत्तर-पूर्वी राज्यों के राजमार्गों पर व्यू प्वाइंट्स के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लिए प्रयुक्त निधियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

उत्तर-पूर्व में पर्यटन अवसंरचना के सम्बन्ध में दिनांक 16.03.2023 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 1905 के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	वर्ष	राज्य	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	जारी की गई राशि
1.	2020-21	अरुणाचल प्रदेश	परशुराम कुंड, लोहित जिला का विकास।	37.88	7.34
2.	2020-21	मेघालय	मेघालय में तीर्थ यात्रा सुविधाओं का विकास	29.32	17.59
3.	2022-23	मिजोरम	प्रशाद योजना के तहत मिजोरम राज्य में तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन के लिए अवसंरचना का विकास	44.88	14.12.2022 को प्रशासनिक स्वीकृति
4.	2022-23	नागालैंड	प्रशाद योजना के तहत जुन्हेबोटो, नागालैंड में तीर्थयात्रा और पर्यटन अवसंरचना का विकास	18.18	14.12.2022 को प्रशासनिक स्वीकृति
5.	2020-21	सिक्किम	युकसोम में फोर पेट्रन सेंट्स में तीर्थयात्रा सुविधा का विकास	33.32	18.50
6.	2020-21	त्रिपुरा	त्रिपुर सुंदरी मंदिर, उदयपुर का विकास	37.80	21.18
			योग	201.38	64.61

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए अभी तक चिह्नित गंतव्यों का विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एचएमटी द्वारा अनुमोदित गंतव्य
1.	अरुणाचल प्रदेश	बोमजीर , मेचुका
2.	असम	जोरहाट, कोकराझार
3.	मेघालय	शिलांग, सोहरा
4.	मिजोरम	आइजोल, चम्फाई
5.	नागालैंड	न्यूलैंड, चुमुकेडिमा
6.	सिक्किम	गंगटोक, ग्यालशििंग
7.	त्रिपुरा	अगरतला, उनाकोटी

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

(लाख रु. में)

क्र. सं.	वर्ष	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	एजेंसी	स्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
1	2019-20	असम (नेमाती, पांडु, जोगीघोषा और विश्वनाथघाट)	राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और 2 पर रिवर क्रूज के चढ़ने/उतरने के नौ (09) मुख्य बिंदुओं पर जेट्टी के विकास	आईड बल्यूएआई	311.45	77.86
2	2020-21	मिजोरम	आइजोल, मिजोरम में कन्वेंशन सेंटर और संबद्ध अवसंरचना का विकास	डब्ल्यूएपी सीओएस	3995.75	1570.71
3	2022-23	एनईआर	पूर्वोत्तर राज्य में 22 व्यू पॉइंट का विकास (i) नागालैंड (2 व्यू पॉइंट) - 5.77 करोड़ रुपए। (ii) मेघालय (3 व्यू पॉइंट) - 6.26 करोड़ रुपये (iii) मिजोरम (9 व्यू पॉइंट) - 12.78 करोड़ रुपये। (iv) अरुणाचल प्रदेश (4 व्यू पॉइंट) - 6.25 करोड़ रुपए। (v) मणिपुर (3 व्यू पॉइंट) - 5.93 करोड़ रुपए (vi) सिक्किम/पश्चिम बंगाल (व्यू पॉइंट) - 3.70 करोड़ रुपए।	एनएचआईडीसीएल	4444.00	444.40

पिछले तीन वर्षों में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में डीपीपीएच योजना के तहत मेलों एवं महोत्सवों की राज्य-वार सूची

(लाख रुपए में)

स्वीकृति वर्ष	राज्य का नाम	मेलों और त्योहारों के नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
2021-22	असम	भोगली महोत्सव	25.00	25.00

		रौंगोली उत्सव	25.00	25.00
2019-20	अरुणाचल प्रदेश	रिवर ट्राइब एंगलिंग फेस्टिवल	25.00	25.00
		मियाओ में बटरफ्लाई मीट	25.00	25.00
2020-21		पेडल टु पाक्के	25.00	25.00
2021-22		ईस्टरली एसेंस लेडम महोत्सव	25.00	25.00
		ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड एडवेंचर	25.00	25.00
2019-20	मणिपुर	संगाई महोत्सव	25.00	25.00
		युवा, साहसिक और जल खेल महोत्सव	25.00	25.00
2019-20	मेघालय	वांगला नृत्य	25.00	25.00
		नोंगक्रेम नृत्य समारोह	25.00	25.00
2021-22		वांगला नृत्य	25.00	25.00
		नोंगक्रेम नृत्य समारोह	25.00	25.00
2019-20	मिजोरम	एंथुरियम महोत्सव	25.00	25.00
		शीतकालीन महोत्सव	25.00	25.00
2020-21		एंथुरियम महोत्सव	25.00	25.00
		शीतकालीन महोत्सव	25.00	25.00
2021-22		एंथुरियम महोत्सव	25.00	25.00
		शीतकालीन महोत्सव	25.00	25.00
2019-20	नागालैंड	हॉर्नबिल उत्सव	25.00	25.00
		थुवु-नी मेला	10.00	10.00
		सुखरुनी फेस्टिवल	15.00	15.00
2021-22		हॉर्नबिल महोत्सव	20.00	20.00
		अंगामी का सेक्रेनी महोत्सव	10.00	10.00
2019-20	सिक्किम	विश्व पर्यटन दिवस, गंगटोक	25.00	25.00
		रेड पांडा विंटर फेस्टिवल	25.00	25.00
2020-21		रेड पांडा विंटर कार्निवल,	25.00	25.00
		जोरेथांग माघी मेला	12.50	12.50
		पेलिंग विंटर टूरिज्म फेस्टिवल	12.50	12.50
2021-22		चेरी टेमी चाय और पर्यटन महोत्सव	12.50	12.50
		टेमी चाय बागान दक्षिण सिक्किम		
		खंगचेंदजोंगा शीतकालीन कार्निवल महोत्सव	12.50	12.50
		जोरेथांग माघी मेला	25.00	25.00
2019-20	त्रिपुरा	खारची मेला	25.00	25.00

		नीरमहल महोत्सव	2.00	2.00
		दिवाली मेला	15.00	15.00
2020-21		भारत बांग्ला महोत्सव	25.00	25.00
